

5. Write short notes : (5×2=10)

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) Savings account and current account

बचत खाता और चालू खाता

(b) Online frauds

ऑनलाइन धोखाधड़ी

[This question paper contains 8 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5634A

H

Unique Paper Code : 6967000008

Name of the Paper : Financial Literacy

Name of the Course : VAC

Semester : II/IV

Duration : 2 Hours 30 min Maximum Marks : 70
(Part A=30 & Part B=40 marks)

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

PART A

(30 marks)

1. This Part carries 4 questions in total.

इस भाग में कुल 4 प्रश्न हैं।

2. Question No. 1 is compulsory.

प्रथम प्रश्न अनिवार्य है।

3. Attempt any 2 out of the remaining 3 questions.

शेष तीन प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

4. All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

5. Use of Simple Calculator is allowed.

साधारण कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति है।

आयकर अधिनियम, 1996 के तहत आय के पांच मदों पर चर्चा कीजिए। आय के प्रत्येक मद का एक उदाहरण दीजिए।

3. Explain the concept of time value of money. Find out the amount and present value of an annuity of Rs. 1100 payable at the end of each year for 15 years if the rate of interest is 9% p.a. (10)

‘टाइम वैल्यू ऑफ मनी’ की अवधारणा को समझाइए। यदि ब्याज दर 9% प्रति वर्ष है तो 15 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 1100 रुपये देय होंगे तो वार्षिकी की राशि और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए।

4. What are mutual funds? Discuss the various Mutual Funds Schemes available in India for investment. (10)

म्यूचुअल फंड क्या हैं? निवेश के लिए भारत में उपलब्ध विभिन्न म्यूचुअल फंड योजनाओं पर चर्चा कीजिए।

5634A

6

PART B

(40 marks)

1. Answer any **Four** Questions.

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

2. Each question carries **10** marks.

प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है।

1. What is investment planning? Explain the steps involved in investment planning and management.

(10)

निवेश योजना क्या है? निवेश योजना और प्रबंधन में सम्मिलित चरणों की व्याख्या कीजिए।

2. Discuss the five heads of Income under the Income tax act, 1961. Give an example of each head of income.

(10)

5634A

3

1. Write short notes on **any two** of the following :

(5×2=10)

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

- (a) Systematic Investment Plan (SIP)

व्यवस्थित निवेश योजना

- (b) Financial Discipline

वित्तीय अनुशासन

- (c) Permanent Account Number (PAN)

स्थायी खाता संख्या

2. What are digital payments? Discuss some of the popular modes of digital payments used in India.

(10)

P.T.O.

डिजिटल भुगतान क्या है? भारत में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल भुगतान के कुछ लोकप्रिय तरीकों पर चर्चा करें।

3. What is a health insurance policy? Discuss the need and importance of buying a health insurance policy. (10)

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी क्या है? स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता और महत्त्व पर चर्चा करें।

4. Mr. Amit (aged 52 years) has a basic salary of 100000 p.m. and a DA of 5000 p.m.

He has income from interest from savings account of Rs. 10,000 and a fixed deposit interest income of Rs. 15,000 during the year. He has made some investments to save income tax.

PPF investment of Rs. 70,000. LIC premium paid Rs. 12,000. Medical insurance for self-paid Rs. 12,000.

Calculate his tax liability as per the old tax regime for assessment year 2024-25. Will it be beneficial for him to opt for the new tax regime instead of old tax regime? (10)

श्री अमित (उम्र 52 वर्ष) का मूल वेतन 100000 प्रतिमाह है और 5000 प्रति माह का डीए है।

वर्ष के दौरान उन्हें बचत खाते से ब्याज से 10,000 रुपये और सावधि जमा से ब्याज से 15,000 रु. की आय हुई। उन्होंने इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश किए हैं-

पीपीएफ निवेश 70,000 रु, एलआईसी प्रीमियम का भुगतान 12,000 रु., स्व-भुगतान के लिए 12,000 रु. का चिकित्सा बीमा। आकलन वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार उसकी कर देनदारी की गणना करें। क्या पुरानी कर व्यवस्था के स्थान पर नई कर व्यवस्था को चुनना उनके लिए हितकर होगा?